

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2024-25	2024	2025		2024-25	2024	2025	
		दिसं.	नव.	दिसं.		दिसं.	नव.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	208	208	196	197	135	135	121	121
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	458011	461496	440488	464928	451305	456515	432607	456940
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	315675	296174	330192	347494	309414	291575	322856	340111
1.2 बैंकों से उधार राशि	112027	138393	78737	84135	111976	138334	78659	84010
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	30310	26929	31559	33299	29916	26606	31093	32820
2 अन्य के प्रति देयताएं	25053097	24491884	26719462	27289143	24557481	24014317	26193834	26751094
2.1 कुल जमाराशियाँ	23055487	22522349	24764446	25374431	22580601	22062591	24259499	24857493
2.1.1 माँग	2748263	2617452	3063407	3327804	2698049	2569573	3012861	3274722
2.1.2 मीयादी	20307224	19904896	21701039	22046627	19882552	19493019	21246638	21582771
2.2 उधार	920568	959775	884674	830784	915248	955100	879199	825578
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	1077042	1009761	1070342	1083928	1061632	996626	1055135	1068023
3 रिज़र्व बैंक से उधार	311466	244697	2144	168974	311466	244697	2144	168974
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	311466	244697	2144	168974	311466	244697	2144	168974
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	985044	1051004	879673	813199	964289	1028694	861146	796079
4.1 उपलब्ध नकदी	84399	91928	85542	85865	81874	89267	82870	83462
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	900645	959076	794131	727334	882415	939428	778275	712617
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	432645	410612	495495	503503	348496	339609	406073	412260
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	273720	271169	328462	336346	215801	216738	265093	271662
5.1.1 चालू खाते में	13239	16333	10617	17232	10619	13938	8538	14383
5.1.2 अन्य खातों में	260481	254836	317844	319113	205182	202800	256555	257279
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	44772	30173	56085	54657	25838	18342	36427	36097
5.3 बैंकों को अग्रिम	43856	42099	33165	37201	39504	40682	32470	35293
5.4 अन्य आस्तियां	70296	67172	77783	75299	67353	63847	72083	69208
6 निवेश	6850574	6747371	7058156	7054974	6697928	6595747	6886472	6884983
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6842024	6739533	7044782	7044429	6697298	6595249	6886017	6884483
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	8550	7839	13374	10545	630	498	455	500
7 बैंक ऋण	18708286	18194821	20013530	20811790	18243972	17743037	19529443	20320788
7ए खाद्यान्न ऋण	87145	106755	131775	139946	36531	56139	79801	87972
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	18370704	17870643	19639760	20404211	17909851	17422048	19157526	19915122
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	76523	73546	88953	97113	74963	72063	88732	96940
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	222320	212904	249024	272764	221059	211819	248008	271627
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	15357	15770	13188	13827	15122	15551	12953	13616
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	23382	21957	22605	23874	22977	21557	22225	23483

टिप्पणी: कॉलम सं. (4) व (8) में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1, जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

As per the Banking Laws (Amendment) Act, 2025, the definition of fortnight has been revised from alternate Fridays to 15th and last calendar day of a month, w.e.f. December 15, 2025.